

8th Class Hindi 2

पाठ -16-मंत्र

मौखिक---

नीचे लिखे प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए-

(क) डॉक्टर चड्ढा कहां जा रहे थे?

उ० डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने जा रहे थे।

(ख) बूढ़े के कितने लड़कों की मृत्यु हो चुकी थी?

उ० बूढ़े के 6 लड़कों की मृत्यु हो चुकी थी।

(ग) डॉक्टर चड्ढा के लड़के को क्या शौक था?

उ० डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप पालने, खिलाने और नचाने का शौक था।

(घ) डॉक्टर चड्ढा के लड़के का क्या नाम था?

उ० डॉक्टर सेना के लड़के का नाम कैलाश था।

नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए-

(क) गरीब बूढ़ा किस लिए अनुनय-विनय कर रहा था?

उ० गरीब बूढ़ा व्यक्ति अपने बीमार बेटे को देखने के लिए अनुनय-विनय कर रहा था। उसके साथ बच्चों में से यही एक जीवित था और उसकी दशा भी ज्वर से बिगड़ती जा रही थी।

(ख) सांप देखने के लिए जिद्द करने वाली मृणालिनी बाद में क्यों पछताने लगी थी?

उ० सांप देखने के लिए जिद्द करने वाली मृणालिनी अपनी जिद्द पर इसलिए पछताने लगी थी क्योंकि उसकी जिद्द के कारण ही कैलाश को सांप ने काट लिया था।

(ग) सांप ने कैलाश को क्यों काट लिया था?

उ० सांप ने कैलाश को इसलिए काट लिया था क्योंकि उस दिन कैलाश ने सांप की गर्दन जोर से दबाई थी जिससे सांप को लगा कि वह उसे मार डालना चाहता है।

(घ) बूढ़ा चाह कर भी झोपड़ी में क्यों न रह सका?

उ० बूढ़ा चाहकर भी झोपड़ी में इसलिए न रह सका क्योंकि वह बेटे की मृत्यु के दुख को समझता था।

(ङ) इलाज करने के बाद वह वहां से तुरंत गायब क्यों हो गया?

उ० इलाज करने के बाद वह वहां से तुरंत गायब इसलिए हो गया क्योंकि वह बुढ़िया के उठने के पहले घर पहुंचना चाहता था।

(च) डॉक्टर साहब ने बूढ़े की सज्जनता से क्या सीखा?

उ० डॉक्टर साहब ने बूढ़े की सज्जनता से सीखा कि डॉक्टर का क्या कर्तव्य होता है? मानव जाति का कल्याण करना ही उसका धर्म है।

आशय स्पष्ट कीजिए-

(क) सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था।

उ० आज से पहले बूढ़े भगत को सभ्य कहे जाने वाले लोगों की निष्ठुरता, निर्दयता और कठोरता पूर्ण मानवीयता का दिल दहलाने वाला मर्मस्पर्शी अनुभव कभी नहीं हुआ था। डॉक्टर चड्ढा के इस व्यवहार से बूढ़े भगत को हार्दिक पीड़ा हुई।

(ख) मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधीन था।

उ० बूढ़े भगत के मन में डॉक्टर चड्ढा से बदला लेने की भावना प्रबल थी। वह चाहता था कि वह उनके पुत्र कैलाश का विष उतारने न जाए पर उसके कर्म पर मन का अधिकार नहीं था।

(ग) भगवान बड़ा कारसाज है।

उ० बूढ़ा भगत उस डॉक्टर के पुत्र को सांप द्वारा इस लिए जाने पर प्रतिक्रिया स्वरूप कहता है कि भगवान बहुत न्यायी है।

गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

"सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे, कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होगा मगर आज बाहर निकल आए।"

(के) भगत कौन था?

उ० भगत झाड़-फूंक करने वाला बूढ़ा आदमी था। वह सांप का जहर उतारने का मंत्र जानता था।

(ख) डॉक्टर साहब ने क्या समझा?

उ० डॉक्टर साहब ने समझा कि कोई मरीज आया होगा।

(ग) आज डॉक्टर साहब क्यों बाहर निकल आए?

उ० आज डॉक्टर साहब इसलिए बाहर निकल आए क्योंकि आज उनके स्वयं के ऊपर दुखा पड़ा था और वह दूसरों का दुख समझ रहे थे।

(घ) अर्थ लिखिए-दुत्कार, आर्तस्वर, क्रंदन।

उ० दुत्कार-तिरस्कृत करना, आर्तस्वर-दुखी स्वर, क्रंदन-रोना।